

स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2019 और 2020 संविदा प्रदान करने हेतु
नोटिस

- **परियोजना का नाम-** स्वच्छ भारत मिशन सहायता ऑपरेशन
- **ऋण संख्या: 8559-आईएन संविदा संख्या डीडीडब्ल्यूएस/एसएसजी-2019 और 2020/3**
- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने "स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2019 और 2020" का संचालन करने के लिए विश्व बैंक वित्तपोषित परियोजना के हिस्से के रूप में एक सर्वेक्षण एजेन्सी को नियुक्त करने हेतु ईओआई आमंत्रित किया था। कुल 12 प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के बाद, एक्सप्रेस ऑफ इन्टरेस्ट के आधार पर 6(छह) एजेन्सियों को शॉर्टलिस्ट किया गया और निम्नलिखित पाँच एजेन्सियों ने अपना आरएफपी प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
 1. एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज
 2. इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीविजनेस प्रोफेशनल्स
 3. आईपीएसओएस रिसर्च
 4. कार्वी डाटा मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड
 5. वापकोस लिमिटेड
- केवल चार फर्मों के आरएफपी प्रस्तावों की जाँच/मूल्यांकन किया गया और नीचे दी गई सारणी 'क' में (प्रत्येक फर्म के सामने स्कोर के साथ) दर्शाये गए अनुसार उन्हें रैंक आबंटित किया गया।
- मूल्यांकन करने के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई फर्मों की सूची में से हित के टकराव के कारण वापकोस लिमिटेड को हटा दिया गया।

सारणी-क

क्र.सं.	फर्म	कुल अंक	रैंकिंग
1.	एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज	78	3
2.	इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीविजनेस प्रोफेशनल्स	61.4	एनक्यू
3.	आईपीएसओएस रिसर्च	92	1
4.	कार्वी डाटा मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड	89	2

- इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीबिजनेस प्रोफेशनल्स को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया क्योंकि यह फर्म न्यूनतम अर्हक तकनीकी स्कोर प्राप्त नहीं कर सकी।
- इन तीन एजेन्सियों द्वारा यथा पठित और यथा मूल्यांकित ऑफर की गई कीमत निम्नलिखित है:

सारणी-‘ख’

एजेन्सियों के नाम	वित्तीय बोली की लागत
कार्वी डाटा मैनेजमेंट सर्विसेज	232821726.50/-
एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज	200000000.0/-
आईपीएसओएस रिसर्च	160066000.0/-

- समग्र तकनीकी स्कोर और प्रत्येक एजेन्सी को प्रत्येक मानदंड और उप-मानदण्ड के लिए आबंटित स्कोर अनुलग्नक-1 में दिया गया है।
- एजेन्सियों का अंतिम संयुक्त स्कोर और अंतिम रैंकिंग निम्नलिखित है:

सारणी-‘ग’

पीएमसी के लिए निविदा के तकनीकी और वित्तीय स्कोर का चार्ट						
एजेन्सियों के नाम	तकनीकी स्कोर (एसटी)	एसटी की भारिता (एसटी का 80%)	वित्तीय स्कोर (एसएफ)	एसएफ की भारिता (एसएफ का 20%)	संयुक्त तकनीकी एवं वित्तीय स्कोर (एस)	रैंकिंग
क	ख	ग	घ	ड.	च(ग+ड.)	छ
कार्वी डाटा मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड	89	71.2	68.75	13.75	84.95	2
एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज	78	62.4	80.03	16.01	78.41	3
आईपीएसओएस रिसर्च	92	73.6	100.00	20.00	93.60	1

- संविदा - आईपीएसओएस रिसर्च प्रा. लिमिटेड
301, तीसरा तल, विपुल स्ववेयर, बी-ब्लॉक, सुशांत लोक पार्ट-1, गुडगांव-122003, हरियाणा, भारत को आबंटित।
- संविदा हस्ताक्षर करने की तारीख: **08.08.2019**
- संविदा का मूल्य: **16,00,66,000/- स्थानीय अप्रत्यक्ष कर को छोड़कर**
- **संविदा की अवधि:** समय अवधि 8 महीने की होगी (2019 और 2020 प्रत्येक में 125 दिन)। यह संविदा 30 नवम्बर, 2020 को समाप्त होगी। एसएसजी-2020, 15 जून 2020 को आरंभ होगा।
- **संविदा का सारांश विषय क्षेत्र :** पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस), जल शक्ति मंत्रालय परिणात्मक एवं गुणात्मक स्वच्छता पैरामीटरों के आधार पर भारत के सभी जिलों और राज्यों की राष्ट्रीय रैंकिंग उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2019 और फिर वर्ष 2020 में 'स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण आरंभ कर रहा है। यह रैंकिंग, जिलों द्वारा स्व-प्रतिवेदन देने, एसबीएम-जी आईएमआईएस से प्राप्त आंकड़ों, स्कूलों, आँगनवाड़ियों, पीएचसी, हाट बाजारों, जैसे सार्वजनिक स्थानों का जिला स्तरीय सर्वेक्षण करके तथा स्वच्छता के प्रति पंचायत और नागरिकों की अवधारणा और कार्यक्रम में सुधार के लिए उनकी सिफारिशों सहित पैरामीटरों के एक समग्र सेट पर आधारित होगी। प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं:

क. मूल्यांकन, सर्वेक्षण और रैंकिंग का मार्गदर्शन करने के लिए समग्र मूल्यांकन, सर्वेक्षण और रैंकिंग प्रोटोकॉल

ख. सर्वेक्षण, विश्लेषण और सिफारिशों के साथ विस्तृत रिपोर्ट

ग. सभी साक्ष्य युक्त प्रलेखन सहित सर्वेक्षण, विश्लेषण और निष्कर्षों की विस्तृत प्रस्तुति।
